



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 कार्तिक 1939 (श10)
(सं0 पटना 1071) पटना, बुधवार, 15 नवम्बर 2017

पुलिस उप-महानिरीक्षक का कार्यालय, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना

केन्द्रीय क्षेत्रादेश सं0-322/2017

7 नवम्बर 2017

सं 2445/सा0 शा0— पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना का पत्रांक-104/330404/पी0-2 अंश दिनांक-26.09.17, ज्ञापांक-133/331327/पी0-2 दिनांक 05.10.17 एवं पत्रांक-126/331253/पी0-2 अंश दिनांक 05.10.17 तथा पुलिस मुख्यालय के ज्ञापांक-71/328579/पी0-2 अंश-2 दिनांक 15.09.17 द्वारा प्राप्त निदेश एवं सिविल अपील संख्या-2795-2797/2017 चन्द्रगुप्त कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.09.17 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विज्ञापन संख्या-704 के अन्तर्गत पुलिस अवर निरीक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नांकित अभ्यर्थियों को अपुनरीक्षित वेतमान बैण्ड वेतन:-9300-34,800 ग्रेड पे-4200 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन मैट्रिक्स में स्तर (level)-6) में परीक्ष्यमान पुलिस अवर निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है:-

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम रौल नं0/ जन्म तिथि	पिता का नाम	स्थायी पता	आरक्षण कोटि	लिंग	अभ्युक्ति
1.	अजय कुमार P24593 01.01.81	श्री विजय प्रसाद	ग्राम-मोहनचक मिलकी, पो0+थाना-इस्लामपुर, जिला-नालन्दा (बिहार) पिन-801303	पि0व0	पुरुष	

2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

3. भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में उनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी ।
4. बिहार पेशन (संशोधन) नियमावली द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी ।
5. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
6. जिन अभ्यर्थियों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के संबंध में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
7. प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटो युक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। अभिप्रमाणित फोटो युक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।
8. योगदान की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा ।
9. सभी नव-नियुक्त पुलिस अवर निरीक्षक, बिहार पुलिस अकादमी, पटना, साँई तारा कॉम्प्लेक्स, आई0ए0एस0कॉलोनी, रूपसपुर, बेली रोड, पटना में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे ।
10. वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी पद पर नियुक्त/नियोजित हैं उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर बिहार पुलिस अकादमी, पटना में योगदान के समय समर्पित करेंगे ।
11. बिहार पुलिस अकादमी, पटना द्वारा अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण-पत्र का संबंधित संस्थान से संपुष्टि कर योगदान स्वीकृत किया जायेगा ।

आदेश से,
राजेश कुमार,
पुलिस उप-महानिरीक्षक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 1071-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>